


Introduction कैसे देना चाहिए?

अगर आपको भी **INTRODUCTION** देने में **Problem** होती है तो मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी **problem** नहीं होगी। दोस्तों जैसे की आप जानते हैं की **introduction** हमारा **first step** होता है और इसी से लोग हमें जानते हैं तो इसको सही से बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है।

(First Impression is the last impression)



indianenglish.in

INTRODUCTION देते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखे।

- **Eye contact** रखें।
- **Confident** रहें।
- सामने वाले को बिल्कुल न घूरे, **Only casual eye contact** रखें।
- **Hand fold** न करें।

(अगर **INTRODUCTION** देते वक़्त आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका **Impression** अच्छा रहेगा)

INTRODUCTION शुरू कहाँ से करना चाहिए ?

INTRODUCTION की शुरुआत हमेशा SALUTATION से करें। such as: Hello, Hi, Good Morning."

Hello और **Hi** में क्या अंतर होता है ?

बहुत से लोगो को ये पता नहीं होता कि Hello और Hi में क्या अंतर है और वो Confuse रहते हैं।

Hello, एक formal word है जिसका प्रयोग हम उनलोगो के साथ करते हैं जो हमसे familiar नहीं होते। Hello का प्रयोग हम उनके साथ भी करते हैं जो Respected and Senior होते हैं।

For Example: Hello sir, Hello ma'am,

(हम किसी से पहली बार मिलने पर भी Hello ही बोलते हैं)

Hi, एक informal word है और इसका प्रयोग हम familiar लोगो के साथ करते हैं। जैसे कि हमारे family members, friends, office colleagues, etc.

CASUAL या **INFORMAL INTRODUCTION** कैसे देना चाहिए ?

सबसे पहले CASUAL INTRODUCTION की बात करते हैं। जो हम क्लास में या Friends के सामने, यानी Familiar लोगो के सामने देते हैं।

- Hi everyone
- My name is Abhishek Pandey

- I was born in Bihar and brought up in Delhi.
- As far as my qualification is concern
- I am a graduate in Computer Science
- I love to sing Bhojpuri songs.
- And I want to become a Digital Marketer

That's all about me. Thank you

ऊपर के Sentences को आप कुछ ऐसे भी बोल सकते है।

1. Hi Everyone की जगह आप Hi guys, Hi friends, Hi there, Hi Class, Hi boys and girls भी बोल सकते हैं।
2. My name is की जगह आप I am, This is भी बोल सकते है। पर मेरे अनुसार My name is बोलना ज्यादा अच्छा होता है। कुछ लोग Myself के बाद अपना नाम बोलते है जो गलत है।
3. I was born की जगह आप I belong to or I am from भी बोल सकते है। कुछ लोग I am belong to बोलते है जो गलत है।
4. I love to की जगह आप I am fond of or I like to भी बोल सकते हैं।
5. I want to become की जगह आप My goal is to be या My Aim is to be भी बोल सकते है।

(हमेशा अपना highest qualification ही बताये, जैसे मान लो आप Graduate हो तो आपको सिर्फ अपने Graduation को Mention करना है 10th/12th को नहीं)

FORMAL/ OFFICIAL INTRODUCTION कैसे देना चाहिए ?



अब हम Formal Introduction/ Official Introduction की बात करते हैं। जो हम Interview में या Presentation में देते हैं।

Interview के दौरान कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें।

- Get in होते ही interviewer से handshake करें, Hello sir, I am Abhishek Pandey, then shake hands, ऐसा करने से अच्छा impression पड़ता है।
- Handshake करते वक़्त Eye Contact जरूर रखें
- जब तक बैठने के लिए न पूछा जाए न बैठे। बैठने के बाद Thank you जरूर बोलें।
- हमेशा सीधा बैठे, कुर्सी पर lean नहीं होना।
- Hand and Leg fold न करे। Female leg fold करके बैठ सकती हैं।
- दोनो हाथ सामने Table पर न रखे बल्कि नीचे रखें।
- चेहरे पर हल्का Smile रखें।

How to introduce ourselves during the Interview?

- Good morning Sir
- Thanks for giving me such a wonderful chance to introduce myself in front of you.
- My name is Abhishek Pandey
- I am 26 years old (Optional)
- I am basically from Bihar but currently living in Delhi, the capital of India.

Coming to Qualification

- I have graduated from Delhi University in 2017/ I am graduate from Delhi University.
- I have done a Digital Marketing course from NiPSAR and I have got expertise in SEO, Social media marketing, Website designing, etc.

Experience

- I have worked as a content writer at NiPSAR for 6 months.

Hobby

- I love listening to Music and writing blogs.

Strength

- I am an extremely workaholic and always eager to learn something new. I never give up until I finish the task.

That's all about me (Thank you)



ऊपर के sentences को आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं।

1. Good morning Sir की जगह आप, Hello Sir से भी शुरू कर सकते हैं
2. हमेशा अपना पूरा नाम (With Tittle) बताये, For Example, Abhishek Pandey
3. I am 26 years old की जगह आप I am 26 या I am 26 years of age भी बोल सकते हैं।
4. I am basically from Bihar but I have done my schooling from Delhi (अगर आपका जन्म और पालन पोषण DELHI में ही हुआ है तो आप ये बोल सकते हो
5. I was born and brought up in Delhi/ I was born and raised in Delhi/ I am from Delhi itself)
6. अगर आपने अभी 12th किया है और Graduation शुरू ही किया है तो आप ये बोल सकते हो (I am done with 12th and doing/pursuing graduation first year from Delhi University)
7. अगर Degree के अलावा आपने कोई Diploma या Certificate course किया है तो उसे भी जरूर बताए
8. अगर आपको कोई Experience है तो जरूर बताये और अगर नहीं है तो सिर्फ यही बोले की (I am a Fresher)
9. अपना Hobby जरूर बताए पर Hobby word का प्रयोग न करें, उसकी जगह आप I love to +v1 /I love +v4 का प्रयोग करें।
10. अपना strength जरूर बताये , इससे सामने वाले पर Strong Impression पड़ता है
11. Formal Introduction देते वक़्त ये लाइन बहुत जरूरी होता है (It is my pleasure to introduce myself in front of you / I am feeling proud to introduce myself in front of

you/ It is a golden opportunity for me to introduce myself in front of you/ Thanks for giving me such a wonderful opportunity to introduce myself in front of you)



indianenglish.in

Note: **Family** के बारे में पूछे जाने पर ही बताये क्योंकि **interviewer** को आपसे मतलब है आपके **family** से नहीं। उनको ज्यादातर आपके **Name, Qualification, Experience, Strength** से ही मतलब होता है। फिर भी कभी आपसे पूछा जाये तो आप ऐसे बोल सकते हैं।

- There are five members in my family including me
- My father is a Private Employee
- My mother is a lovely house maker
- My elder brother is a Mechanical Engineer
- And my younger sister is a student of 10th standard

(ऊपर के sentences मैंने अपने according लिखे है आप अपने अनुसार उसे लिखेंगे या बोलेंगे, For Example, अगर आपके father किसान है तो आप बोलेंगे की My father is a farmer. अगर आपकी mother, जॉब करती है तो आप बोलेंगे की My mother is a working woman)

Question Related to Introduction

1. Tell me something about yourself./ Introduce yourself
2. Can you tell me a little about yourself?
3. Can you please walk me through your resume?
4. Tell me something about your family./Introduce your family
5. Where do you belong to?/Where are you from?
6. What do you do in your spare time?/What do you do in your free time?
7. How do you do for fun?
8. What is your hobby?
9. How old are you?/What is your age?
10. What do you want to become?/What is your goal?

Daily Use Hindi to English Sentences

आपका नाम क्या है?	What's your name?/what is your name?
मेरा नाम अभिषेक है, और आपका?	My name is Abhishek and yours?
मेरा नाम अतुल है।	My name is Atul/I am Atul.
आपसे मिलकर अच्छा लगा।	It's nice to meet you. It's glad to meet you.

मुझे भी खुशी हुई।	Same here. It's nice to meet you too. Likewise.
आप क्या करते हैं?	What do you do? What do you do for a living?
मैं एक YouTuber हूँ, और आप?	I am a YouTuber, and you?
मैं एक Teacher हूँ।	I am a Teacher.
कहाँ रहते हैं आप?	Where do you live? Where do you put up?
मैं दिल्ली में रहता हूँ।	I live in Delhi. I put up in Delhi.
दिल्ली में कहाँ?	Where in Delhi?
मैं दिल्ली में जैतपुर में रहता हूँ, और आप?	I live at jaitpur in Delhi, and you?
मैं चांदनी चौक में रहता हूँ।	I live in Chandni Chowk.
आपके परिवार में कितने लोग हैं?	How many members are there in your family?
मेरे परिवार में 5 लोग हैं, और आपके?	There are five members in my family, and your?
मेरे परिवार में मुझे मिलाकर 6 लोग हैं।	There are six members in my family including me.
आपके hobbies क्या क्या हैं?	What are your hobbies?
मुझे क्रिकेट खेलना और गाने सुनना बहुत पसंद हैं।	I love playing cricket and listening to music.
और आप अपने खाली समय में क्या करते हैं?	And what do you do in your spare time?
मैं खाली समय में books पढ़ना पसंद करता हूँ।	I love reading books in my spare time.
आपके पास कौन सा फ़ोन है	Which phone do you have?

मेरे पास I-phone है, और आपके पास?	I have an I-phone, and you?
मैं ज्यादा महंगे फ़ोन नहीं चलाता, मेरे पास Samsung S11 है।	I don't use many expensive phones, I have a Samsung S11.
आप vegetarian हो या non-vegetarian ?	Are you vegetarian or non-vegetarian?
मैं vegetarian हूँ पर अंडा खाता हूँ	I am a vegetarian but I eat Egg.
चलो ठीक है फिर कल मिलते हैं।	Okay, let's meet tomorrow.
किससे बात कर रहे थे?	Whom were you talking to?
मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था।	I was talking to my friend.
हम दोनों एक ही स्कूल में थे।	We went to school together. We were in the same school.
चलो अब खाना खा लो।	Okay, come and eat now.
आज dinner में क्या है माँ?	What have you cooked for dinner, mom?
तुम्हारा favorite भोजन।	Your favorite dish.
Wow , यानी आज आपने खीर बनाया है।	Wow, it means you have cooked sweet rice today.
माँ, आप बहुत अच्छी हो।	Mom, you are the best.
हाँ, हाँ ठीक है, अब मस्का मत लगाओ।	Okay, Alright, now don't butter me. Alright, now stop buttering me.
और सुनो, आज बहुत ठंड है इसलिए आप खाना खाओ और रजाई में घुस जाओ।	Listen it's too cold today, so after dinner, get under the quilt.
वैसे dad कब आएंगे office से?	By the way, when will dad return from the office?
वो 10 बजे तक आ जाएंगे।	He will be here by 10 o'clock.
अगर मैं सो जाऊँ, तो मेरी तरफ से dad को good नाईट बोल दीजिएगा।	If I fall asleep, say goodnight to daddy on my behalf.

List of Daily use question answers

अब हम कुछ ऐसे **question and answers** देखेंगे जो आप **daily basis** पर किसी से पूछते हैं। ये **daily use question answers** अंग्रेजी बोलने में बहुत काम आएंगे। अगर आप किसी से अंग्रेजी में **question** नहीं पूछ पाते तो ये सभी **questions** आपके लिए बहुत जरूरी हैं।

ये कितने का है।	How much is this?
ये आपको 500 का पड़ेगा।	It will cost you five hundred?
आपको आफिस आने में कितना वक्त लगता है?	How long do you take to get to the office?
मुझे आफिस आने में 1 घंटा लगता है।	I take one hour to get to the office.
आप ये सब किसके लिए कर रहे हो?	Whom are you doing it for?
मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ।	I am doing it for you.
आप एक दिन में कितनी बार खाते हो?	How often do you eat in a day?
क्या आप कभी वैष्णो देवी गए हो?	Have you ever been to Vaishno Devi?
मैं वैष्णो देवी तीन बार गया हूँ।	I have been to vaishno devi thrice.
आप दिल्ली में कब से रह रहे हो?	Since when have you been living in Delhi?
मैं दिल्ली में 1990 से रह रहा हु।	I have been living in delhi since 1990.
आपको ये किसने बताया?	Who told you this?
आपके भाई ने बताया।	Your brother told me.
क्या कोई अंदर है?	Is someone inside?
आपने ऐसा क्यों किया?	Why did you do it?
वहां कितने लोग थे?	How many people were there?
वहां 5 लोग थे।	There were five people.

तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की?	How dare you to touch me?
आपका बर्थडे कब आता है?	When does your birthday fall?
आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो?	Why are you not talking to me?
क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हूँ।	Because I am mad at you.
आपको क्या चाहिए?	What do you need? What do you want?
मुझे बस तुम चाहिए।	I just need you.
क्या आप मुझपे एक ऐहसान कर सकते हो?	Can you do me a favour?
क्या खाना चाहोगे?	What would you like to have/eat?
मैं कॉफी लूंगा।	I will have coffee.
क्या मैं आपसे बात न करूँ?	Should I not talk to you?
तुम आज तक उसे क्यों नहीं भूल पाए?	Why couldn't you forget her till today?
क्या वो तुम्हारी सौतन है?	Is she your co-wife?
क्या आप मुझसे पाप करवाना चाहते हो?	Do you want me to commit sin?
तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या?	Have you lost it? Have you lost your mind?
तुम्हारा इरादा क्या है?	What is your intention?
मेरा इरादा तुम्हारी भावनाओ को ठेस पहुचाने का नहीं है।	I don't intend to heart your feeling.
क्या मैं कुछ कह सकता हूँ?	May I say something?
तुम्हे इतनी भी क्या जल्दी है?	Why are you in so hurry?
क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ?	Do I not deserve you?
सच तो ये है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ।	To be honest, I don't deserve you.

Some Important Words

At once	एक साथ	They shouted at once. (वो लोग एक साथ चिल्लाये)
For a while	थोड़ी देर के लिए	मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो। Give me your mobile for a while.
Quite	पूरी तरह से	I am quite well now. अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ
In a while	थोड़ी देर में	I will come in a while (मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा)
Quite often	अक्सर	I go there quite often (मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ)
Similarly	इसी प्रकार	He went and met him. Similarly, he met too (वो गया और उससे मिला. इसी तरह से यो भी मिला)
Simultaneously	एक ही समय पर, एक ही साथ	I am studying, working simultaneously (मैं पढ़ रहा हूँ साथ में जॉब भी कर रहा हूँ)
Needless	जरूरत नहीं	Needless to say that he is mad (कहने की जरूरत नहीं, कि वो पागल है।)
Continuously	लगातार	It is raining continuously (बारिश लगातार हो रही है।)
Pass by	बगल से गुजरना	She passed by me. (वो मेरे बगल से गुजरी)
Of no use/avail	कोई फायदा नहीं	I went to doctor but of no use (मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फायदा नहीं हुआ।)

Worthwhile	फायदे का सौदा, लाभदायक	It's not worthwhile. (ये फायदे का सौदा नहीं है)
After a long	बहुत देर बाद	राम बहुत देर बाद आया (Ram came after a long)
Cup of tea	बस की बात होना	It is not my cup of tea (ये मेरे बस की बात नहीं है)
All the while	पूरे दिन, पूरे वक्त, सारा वक्त	I kept on studying all the while (मैं सारा दिन पढ़ता रहा)
Rip Off	लूटना, बेवकूफ बनाना	She is trying to rip you off. (वो तुझे लूटने की कोशिश कर रही है)
Shirk	जी चुराना	I never shirk my responsibilities. (मैं अपनी जिम्दारियों से कभी जी नहीं चुराता)
Impose	थोपना	You are imposing your mistake on me (आप अपनी गलती मेरे पर थोप रहे हो)
Fond of	शौकीन होना	I am fond of bikes (मैं बाइक का शौकीन हूँ)
Over cast	बदलो से भरा हुआ	The sky is overcast (आसमान बदलो से भरा हुआ था)
For no reason	फालतू में	You are sitting here for no reason (तुम फालतू में यहाँ बैठे हुए हो)
Knowingly	जान बूझकर	You pushed me knowingly (तुमने जानबूझकर मुझे धका दिया)
unknowingly	अनजाने में	He made a mistake unknowingly (उससे अनजाने में गलती हो गयी)

Remind	याद दिलाना	तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। (Your face reminds me of someone)
Altogether	पूरी तरह से	We are different altogether. (हम पूरी तरह से अलग हैं।)
Get on	चढ़ना (बस, ट्रेन)	I got on the bus (मैं बस पर चढ़ा)
Get in	चढ़ना (कार)	I got in the Car (मैं कार में चढ़ा)
Get off	उतरना (बस, कार)	I got off the bus (मैं गाड़ी से उतरा)
Stand by	साथ देना	I always stand by you (मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ)
Bring up	पालन पोषण करना	My elder sister brought me up. (मेरी बड़ी बहन ने मेरा पालन पोषण किया था)
Pass away	मृत्यु हो जाना, गुजर जाना	His father passed away last year (उसके पापा पिछले साल गुजर गये)
Chill out	मजे करना, टैंशन न लेना	He is chilling out these days (आजकल वो मजे कर रहा है)
Stammer	हकलाना	He was stammering (वो हकला रहा था)
Whisper	फुसफुसाना	He was whispering in his ears (वो उसके कान में फुसफुसा रहा था)

Peel off	छिलका उतरना, छीलना	He was peeling off the potatoes (वो आलू छील रहा था)
Like anything	बुरी तरह से	He is working hard like anything (वो बुरी तरह मेहनत कर रहा है)

Daily Use Phrases

<u>Word</u>	<u>Meaning</u>
Believe somebody	किसी पर विश्वास करना
Hug someone	किसी को गले लगाना
Make someone proud	किसी का सर गर्व से ऊँचा करना
Wonder why	पता नहीं क्यों
Wonder how	पता नहीं कैसे
Wonder when	पता नहीं कब
Wonder what	पता नहीं क्या
Wonder where	पता नहीं कहाँ

Gradually	धीरे-धीरे
As	जैसे-जैसे
Don't you worry at all	तुम बिल्कुम भी चिंता मत करो
Arrogant	घमंडी
Down-to-earth	जिसमे घमंड न हो
Innocent	मासूम / निर्दोष
Guilty	दोषी
Who is at fault	गलती किसकी है
On one condition	एक शर्त पर
Have a bet	शर्त लगा लो
At what time	कितने बजे
Most of the students	ज्यादातर विद्यार्थी
Needs of the people	लोगों की जरूरतें
Hear something	सुनना
See	देखना
Look at somebody	किसी को देखना

Gaze at somebody	किसी को एकटक देखना
Keep a watch	निगरानी रखना
Stare at somebody	किसी को घूरना
Flatter somebody	किसी की चापलूसी करना
Spoil somebody	किसी को बिगाड़ना
Pamper somebody	किसी को लाड प्यार से बिगाड़ना
Get spoilt/ Get pampered	बिगड़ जाना
Threaten somebody	किसी को धमकी देना
Defame somebody	किसी को बदनाम करना
Leave somebody in a lurch	किसी को बीच मझधार में छोड़ना
Roam around/ Mooch around	फालतू घूमना
Back-bite somebody	किसी की पीठ पीछे बुराई करना
Rack somebody's mind	किसी का दिमाग खाना / चाटना
Stretch	अंगड़ाई लेना
Yawn	उबासी लेना
Expose somebody	किसी की पोल खोलना

Kid	मजाक करना
Fear somebody	किसी से डरना
Frighten somebody	किसी को डराना
Get scared	डर जाना
Hush up the matter	रफा दफा करना
Eye somebody/something	किसी व्यक्ति / वस्तु पर बुरी नज़र डालना
Cast an evil eye on somebody/something	किसी व्यक्ति / वस्तु पर बुरी नज़र डालना
Exorcise somebody	किसी की नजर उतारना
Tarnish somebody's image	किसी की इज्जत मिटटी में मिलाना
Hang up someone's call	किसी का फ़ोन काटना
Feel offended	बुरा मानना
Imitate somebody	किसी की नक़ल उतारना
Appease somebody	किसी नाराज व्यक्ति को मनाना
Take something to heart	कोई बात दिल से लगा लेना
Calm down/ Cool down	शांत हो जाना

Hesitate	हिचकिचाना
Ask somebody's welfare	किसी के हालचाल पूछना
Accept something	कुछ स्वीकार करना
Deny something	कुछ अस्वीकार करना
Itch	खुजली करना
Twitch	आँख फड़कना
Wink	आँख मारना
Sneeze	छींक
Not any more	और ज्यादा नहीं
Not any longer	और ज्यादा (समय) नहीं
Lose one's respect	अपनी इज्जत गंवाना
Make somebody angry	किसी को गुस्सा दिलाना
· Speak frankly/ Speak openly	खुलकर बोलना / बात करना
Speak one's heart out	दिल खोलकर बातें करना
Pretend to be sick	बीमार होने का दिखावा करना
That's Why	तब ही / इसीलिए

That's where	वहां ही / वहीं
Earlier	पहले (in past)
First of all	सबसे पहले
But no longer now	पर अब नहीं
But he turned out to be a fool	पर वह तो बेवकूफ निकला
Consult somebody	किसी से मिलकर सलाह करना
Put oneself in somebody's shoes	अपने आप को किसी की जगह रखना
I am not able to come to terms with this thing	मैं यह बात हजम नहीं कर पा रहा हूँ
Eventually/ In the end	अंत में
Find somebody stealing	किसी को चोरी करते पाना
Take pity on somebody	किसी पर तरस खाना
Do something outstanding in life	जीवन में कुछ स्पेशल करना
At such a tender age	इतनी छोटी उम्र में
Give someone a smashing reply	मुंह तोड़ जवाब देना
God willing	भगवान ने चाहा तो
God forbid	भगवान न करे

Get peace of mind	मन की शांति मिलना
Lose one's sense of Shame	शर्मो हया बेचकर खाना
Cut somebody to the quick	किसी को बहुत दुःख पहुँचाना
Fail somebody's plan	किसी की योजना विफल करना
knead the dough	आटा गूँथना
Season the pulse	दाल छोंकना
Saute the vegetables	सब्जी छोंकना
Bake the chapattis	रोटी सेकना
Create a scene	तमाशा खड़ा करना
Hold somebody responsible	किसी को जिम्मेदार ठहराना
Ruin somebody	किसी को बरबाद करना
Develop an inferiority in somebody	किसी में हीन भावना आना
Harass somebody	किसी को सताना
Take a nap	झपकी लेना
Beat about/around the bush	इधर उधर की बातें करना
You have better leave	भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ

Flit away	नौ दो ग्यारह होना
Turn tails	दुम दबाकर भाग आना
Out of fear	डर के मारे
Curse somebody	किसी को कोसना
6 Months from now	आज से छः महीने बाद
Rest on one's laurels	चैन की बंशी बजाना
Get the house white washed	मकान में सफेदी करवाना
Faint	चक्कर खाकर गिर जाना
Throw dust in somebody eyes	किसी की आँखों में धूल झाँकना
Vacate the house	- मकान खाली करना
Take my word sir	वादा रहा सर
Put somebody in a dilemma	किसी को दुविधा में डालना
Beat somebody black 'n' blue	मार-मार कर कचूमर निकाल देना
Till one's last breath	आखिरी साँस तक
Take a sigh of relief/ Heave a sigh of relief	चैन की साँस लेना
Tremble with fear	डर से कांपना

Next seven generations/ Coming seven generations	आने वाली सात पुस्तें
Spare somebody	किसी को छोडना / बखश देना / सजा न देना
Disguise oneself	भेष बनाना / रूप बनाना
Earn a lot of name 'n' fame	बहुत नाम कमाना
Almost every day	करीब-करीब हर दिन
Get into some or the other trouble	किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाना
Find it difficult to do something	ऐसा करने में मुश्किल होना
Play pranks on somebody	किसी से शरारत करना
Flatly refuse	साफ मना करना
Give into somebody's request	किसी की प्रार्थना के आगे झुकना
Bore somebody	किसी को बोर करना
Get bored	बोर हो जाना
Make one's mark/ Make one's identity	अपनी पहचान बनाना
Prove one's worth/ Prove one's mettle	अपनी काबिलियत सिद्ध करना

At least give it a try	कम से कम कोशिश तो करके देखो
In the company of bad people	बुरे लोगों की संगत में
Sleep like a log	घोड़े बेचकर सोना
Go on strike	हड़ताल पे जाना
Work for the development	विकास के लिए काम करना
Worry about somebody	किसी की चिंता करना
Hard work pays	मेहनत का फल मीठा होता है
Honesty pays	ईमानदारी का फल मीठा होता है
Patience pays	धैर्य का फल मीठा होता है
My heart starts throbbing	मेरा दिल धडकने लगता है
I fail to understand	मुझे समझ में नहीं आ रहा है
Get tongue-tied	मुंह पर ताला पड़ जाना
No matter how my father is	मेरे पापा चाहे जैसे भी हों
Loot/ Rob	लूटना
Robbers	लुटेरे
Sin	पाप / पाप करना

Sinners	पापी लोग
Warn somebody against something	किसी को किसी चीज से सावधान करना
Trust somebody blindly	किसी पर अँधा विश्वास करना
Contest election	चुनाव लड़ना
Worn-out clothes	फटे पुराने कपड़े
Make somebody bite the dust	किसी को धूल चटाना
There was a time when	एक समय था जब
Gone are the days when	वे दिन बीत गए जब
Words fail to express my feelings	मेरे पास शब्द नहीं हैं भावनाएं व्यक्त करने के लिए
· From the scratch	एक दम सुरु से (0 से)
· In broad day light	दिन दहाड़े
Speak a bit too much	कुछ ज्यादा ही बोलना
Encourage somebody / Discourage somebody	किसी को प्रोत्साहित / हतोत्साहित करना
Hear of somebody / Hear from somebody	किसी की खबर मिलना

As far as I remember	जहाँ तक मुझे याद आता है
Bring name 'n' fame to somebody	किसी का नाम रोशन करना

Basic Phrases

How are you का रिप्लाई कैसे करते हैं?

अब प्रश्न ये आता है की "हाउ आर यू के रिप्लाई कैसे करते हैं?" वैसे तो हम सभी जानते हैं की **How are you?** का रिप्लाई **I am Fine** होता है पर इसके अलावा भी **How are you?** के बहुत से **Replies** हैं जो आपको आने चाहिए।

- I am fine.
- I am good.
- I am great.
- I am Fantastic.
- I am Awesome.

कोशिश करें की जब आपसे कोई " **How are you?** " बोले तो उसका **reply** करते वक़्त आप **Counter Question** जरूर करें यानि इसका मतलब है की समाने वाले से जरूर पूछे की वो कैसा है। तो आपका "How are you?" का जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए।

- I am fine, how are you?
- I am good, what about you?
- I am great, and you?
- I am Fantastic, how about you?

Replies of "How are you?"

- ✓ *I am fine, how are you?*
- ✓ *I am good, what about you?*
- ✓ *I am great, and you?*
- ✓ *I am Fantastic, how about you?*

इस तरह से **How are you?** का **reply** करने से सामने वाले को भी अच्छा लगता है और वो आपसे सही से घुला मिला महसूस करता है।

आपने बहुत बार लोगो को और भी तरीको से किसी का हाल चाल पूछते हुए देखा होगा जो थोड़े **informal** होते हैं। इन सभी **sentences** का प्रयोग **America, Australia, England** जैसे **Native English** देशो में ज्यादा किया जाता है।

how are you doing meaning in hindi

अब आप ये सोच रहे होंगे की " **How are you doing?** का मीनिंग" क्या होता है और इसका प्रयोग कब करते हैं। अगर सच कहें तो **How are you doing?** का कोई हिंदी मतलब नहीं होता जैसे की **How are you?** का होता था। ये **sentence** बाहर के देशों में (**England, America, Australia**) बहुत ज्यादा प्रयोग होता है और अगर आप **Hollywood movies** देखते हैं तो आपने ये **sentence** बहुत बार सुना होगा।

How are you doing? means "आप कैसे हो?" होता है, आप कृपया इसके **English to Hindi translation** पर ना जाये तो अच्छा होगा। ये एक **informal** तथा **Casual** तरीका है **How are you?** पूछने का।

Replies to "How are you doing?"

Replies of "How are you doing?"

[It is a very Informal way to ask "**how are you?**"]

 *it is very common in Native English Countries*

✓ I am doing good, what about you?

✓ I am doing well, and you?

How are you doing? के दो **replies** होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और आपने इन्हे सुना भी होगा अगर **English TV shows** या **Hollywood** फिल्में देखते हैं तो।

- I am doing good, what about you?
- I am doing well, and you?

“What’s Up” meaning in hindi

मैं जब कभी दूसरो को **What’s Up?** बोलते हुए सुनता था तो बड़ा कंप्यूज होता था और सोचता था की आखिर ये “**What’s Up means**” होता क्या है। कुछ दिन **research** करने पर मुझे पता लगा की **What’s Up? means “How are you?”** होता है। उस दिन काफी **Surprise** हुआ और सोचने लगा की आखिर **What’s Up?** का प्रयोग किसके साथ और किस **situation** में किया जाता है।

तब मुझे पता चला की **What’s Up?** एक **informal** तरीका है किसी का हाल चाल पूछने का और ये दोस्तों के बीच काफी पॉपुलर है यानि जब भी हमे अपने दोस्त का हाल चाल पूछना है तो उस से बोल सकते हैं की “**What’s Up, bro?**”

वैसे कई **situation** में इसका मतलब ये भी होता है की “ क्या हो रहा है?/ क्या चल रहा है?” पर ऐसे सिचुएशन में सामने वाला **actual** में जानने को अक्छुक नहीं होता है की क्या चल रहा है वो बस ऐसे ही पूछ लेता है।

Reply to “What’s Up?”

अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर **What’s Up?** का **reply** कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूँ की इसका **reply** बहुत **simple** होता है। तो जैसे आपसे कोई पूछता है

What’s Up?

तो आपका **Reply** होगा “ **Not much, I am just reading an Article**” यानि **Not much** बोलने के बाद आप जो भी कर रहे हो (**I am just reading an Article**) बस उसको बता दो।

Replies of "What's Up?"

[It is very Informal way to ask "how are you?"]



it is very common in Native English Countries

- ✓ Not much, I am just watching a movie.
- ✓ Nothing much, I am just browsing the internet.

- Not much, I am just watching a movie.
- Not much, I am just having fun.
- Not much, I am just browsing the internet.

नोट: आप चाहे तो **Not much** की जगह **Nothing much** का भी प्रयोग कर सकते हैं

- Nothing much, I am just watching a movie.
- Nothing much, I am just having fun.
- Nothing much, I am just browsing the internet.

"Thank You" कब बोलना चाहिए?

जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हम उसका "धन्यवाद" या "शुक्रिया" करने के लिए "**Thank You**" बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ की जो भी काम उस व्यक्ति ने आपके लिए किया वो आपको अच्छा लगा है और उसका आभार व्यक्त कर रहे हो।

वैसे **Thank You** का हिंदी में मतलब होता है "आपका धन्यवाद" या "आपका शुक्रिया" पर यहाँ **You** पहले से ही **Understood** होता है इसलिए हम इसे केवल "धन्यवाद" या "शुक्रिया" बोलते हैं।

- **Thank you for everything you did for me.** (आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया)
- **Thank you for coming.** (आने के लिए धन्यवाद)
- **Thank You for giving me a chance to show my worth.** (मुझे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका देने के लिए शुक्रिया)



- **Thank you for your help.** (आपके मदद के लिए शुक्रिया)
- **Thank you for selecting me.** (मुझे चुनने के लिए धन्यवाद)
- **Thank you for making my day.** (मेरा दिन बनाने के लिए शुक्रिया)
- **Thank you for having me here.** (मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया)
- **Thank you for making my dream come true.** (मेरे सपनों को साकार करने के लिए धन्यवाद)

Reply to "Thank You"

Replies of "Thank You"

- You are welcome.
- It is my pleasure.
- Pleasure is all mine.
- Mention Not
- Anytime

If we talk about the reply of "thank you" then It has got many replies but it varies from person to person.

- You are welcome/ You're welcome
- It is my pleasure.
- Pleasure is all mine.
- Mention Not
- Anytime

Thank You So Much meaning in Hindi

“**Thank You So Much**” का मतलब होता है “आपका बहुत बहुत धन्यवाद” या “आपका बहुत बहुत शुक्रिया” आप **Thank You So Much** का प्रयोग तब करते हो जब आप किसी का बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करते हो। **Thank You So Much** आप उस व्यक्ति को बोलते हो जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया होता है, यानी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की होती है।

- **Thank you so much for making me realise who I am.**
- (मुझे अपना अस्तित्व महसूस कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया)
- **Thank you so much for inviting me.**
- (मुझे **Invite** करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद)
- **Thank you so much for taking care of me.**
- (मेरा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया)
- **Thank you so much for helping me out.**
- (मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया)
- **Thank you so much for whatever you have done for me.**
- (आपने जो भी मेरे लिए किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद)

Thanks, meaning in Hindi

हमने बहुत बार लोगो को **Thanks** बोलते हुए भी सुना है और उस वक्त हम **Confuse** हो जाते हैं की आखिर ये “**Thanks meaning in Hindi**” होता क्या है और **Thank You** और **Thanks** में अंतर क्या होता है?

में आपको बता दू की दोनों का ही मतलब “धन्यवाद” या “शुक्रिया” ही होता है पर **Thanks** को **Informal** माना जाता है यानि इसका प्रयोग आप अपने **family** या **Friends** के साथ कर सकते हो। **Thank You** का प्रयोग ज्यादातर **formal situation** में किया जाता है।

- **Thanks for what?**
- (शुक्रिया किस लिए?)
- **Thanks for that.**
- (उसके लिए शुक्रिया)
- **Thanks for the food.**
- (खाने के लिए धन्यवाद)

- Thanks for the song.
- (गाने के लिए शुक्रिया)
- Thanks for the gift.
- (तोहफे के लिए शुक्रिया)
- Thanks for the water.
- (पानी के लिए धन्यवाद)
- Thanks for the money.
- (पैसे के लिए आपका धन्यवाद)

Thanks a lot meaning in Hindi

Thanks a lot means “आपका बहुत बहुत शुक्रिया” पर इसका प्रयोग **Thanks** की तरह **informal Situation** में ही किया जाता है यानि जब आपके किसी दोस्त ने या किसी **Family Member** या **relative** ने आपकी बहुत ज्यादा मदद की है तो वहां आप बोल सकते हो “**Thanks a lot**”

- Thanks a lot for giving me a hand.
- (मेरा हाथ बटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया)
- Thanks a lot for helping me with my school project.
- (मेरे **school project** में मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया)
- Thanks a lot for standing with me in my ups and downs in life.
- (मेरे लाइफ के उतर चढ़ाव में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया)

Thankful meaning in Hindi

हमने बहुत बार लोगो को बोलते हुए सुना है की “**I am very thankful to you**” पर इसको हिंदी में क्या कहते है ये अपने को नहीं पता होता है। दरअसल **Thankful** का मतलब होता है “शुक्रगुजार” या “आभारी” तो ऊपर वाले **sentence** का पूरा मतलब हुआ की “ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ” या “मैं आपका बहुत आभारी हूँ” अगर आपको शुक्रगुजार का मतलब नहीं समझ आया तो इसका मतलब है की किसी पर बहुत उपकार किया है और आपके उपकार का रिडी है।



Thankful

- I am really thankful for your favour.
- (आपके ऐहसान के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ)
- Indian cricket is thankful to sachin Tendulkar.
- (भारतीय **Cricket** सचिन तेंदुलकर का शुक्रगुजार है)
- I am really thankful to my mom.
- (मैं अपने मम्मी का शुक्रगुजार हूँ)

“What’s going on” meaning

What's going on को हिंदी में कहते हैं “क्या चल रहा है?” “क्या हो रहा है?” और इस **phrase** का प्रयोग हम आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं की

- क्या चल रहा है आज कल?
- what’s going on these days?
- क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में?
- what’s going on in your life?

- क्या चल रहा है यहाँ पर?
- What's going on here?



What's going on?

What's going on का रिप्लाइ कैसे करें?

जैसा की अब आपको समझ आ गया है की **What's going on** का मतलब होता है “क्या चल रहा है?” “क्या हो रहा है?” तो इसका रिप्लाइ भी अपने को पता होना चाहिए। **What's going on** का रिप्लाइ होता है “**Nothing Much**” जिसका हिंदी में मतलब होता है “कुछ खास नहीं, ज्यादा कुछ नहीं” जैसे

A: What's going on, brother?

B: **Nothing much, I am just watching Instagram reels.**

A: What's going on in your life?

B: **Nothing much, just struggling in life.**

A: What's going on here?

B: **Nothing much, We are just talking.**



I am Done Meaning in Hindi

I am Done का **same** मतलब होता है जो **I have done** का मतलब होता है। यानि साफ़ शब्दों में कहे तो दोनों ही **Finished** या **Completed** एक्शन की बात करते हैं। चलिए कुछ **Examples** के माध्यम से इसको समझते हैं।

मान लो राहुल ने खाना खा लिया और बाहर निकला तो हमने पूछा की

- क्या आपका हो गया?
- **Are You Done?**

यहाँ हमारे पूछने का ये मतलब है की क्या राहुल ने खाने के **Action** को **Finish** या **Complete** कर लिया। फिर राहुल ने जवाब दिया की

- हाँ मेरा हो गया।
- **Yes, I am done.**

यहाँ राहुल के कहने का मतलब ये है की उसने खाने के **Action** को **Finish** या **Complete** कर लिया है।

I am Done

It talks about finished/completed Action

Finally, I am done with my today's homework.

(अंततः आज का मेरा काम ख़तम हो गया है।)

I am done with cooking, ask everyone to eat.

(मैंने खाना बना लिए है सबको खाने के लिए कह दो।)

For More
Visit: indianenglish.in

I am Done Meaning in Hindi [Second Situation]

कभी कभी **I am done** का मतलब होता है **I quit** यानि हार मान जाना , हम बहुत बार तंग आकर किसी काम से हार मान लेते हैं क्योंकि बार बार करने पर भी वो नहीं होता चाहे वो कोई काम हो या **relation** और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके होते हैं।

- **I am done with you.**
- (मैं तुमसे तंग आ गया हु।)

इस **sentence** को हम तब बोलते हैं जब सामने वाला बार बार गलतिया करता है और आप उससे तंग आ जाते हैं और हार मान लेते हो की अब इसे नहीं समझाना। ऐसे **sentence** का प्रयोग ज्यादातर **relationship** को **end** करने के लिए किया जाता है।

- You are used to drinking and I have been tolerating it for so long but, not anymore, I am done
- (तुम्हे पिने की लत लग गयी है और मैं बहुत दिनों से तुम्हे सह रहा हूँ पर अब और नहीं मैं तुमसे तंग आ गया हूँ।)

I am Done

It means I quit because I am fed up of it and can't take it anymore

I am done with you.
(मैं तुमसे तंग आ गया हु।)

I am done with our relation
(मैं हमारे *relation* से थक चूका हूँ)

For More
Visit: indianenglish.in

- He has been annoying me since morning and I have had enough now I am done.
- (वो मुझे सुबह से परेशान कर रहा है और अब बहुत हो गया अब मैं तंग आ गया हु।)
- I have been getting 8k per month for the last 5 years. I can't work here anymore I am done.
- (मुझे पिछले 5 वर्षों से 8 हजार रूपये महीने **salary** मिल रही है। मैं यहाँ अब काम नहीं कर सकता मैं तंग आ गया हु।)
- He is done with your daily excuses.
- (वो तुम्हारे रोज रोज के बहनों से थक चूका है।)

I am Done with meaning in Hindi

I am done with का मतलब ये होता है की जिस काम में आप लगे हुए थे वो **Finished/completed** हो गया है।

- **Finally, I am done with my today's homework.**
- (अंततः आज का मेरा काम खतम हो गया है।)
- **I am done with cooking, ask everyone to eat.**
- (मैंने खाना बना लिए है सबको खाने के लिए कह दो।)
- **I am done with today's topic, let's catch you tomorrow.**
- (मेरा आज का टॉपिक **finished** हो गया है आपसे कल मिलते है)
- **I am done with painting and now I am looking forward to playing cricket.**
- (मेरा पेंटिंग **Finished** हो गया है अब मैं क्रिकेट खेलने के लिए **Excited** हूँ।)
- **I am done with house chores now let's have fun.**
- (मेरा घर का खतम हो गया है अब थोड़ा मस्ती करते हैं।)
- **I am done with my work.**
- (मेरा काम हो गया है)

What About You Meaning in Hindi

What About You एक **phrase** है जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता और इसका मतलब इससे पहले बोले जाने वाले **sentence** पर निर्भर करता है। तो अगर साफ़ शब्दों में कहा जाये तो **What About You** का मतलब बार बार बदलता रहता है जैसे जैसे **sentence** बदलते है।

मुझे पता है आप थोड़े से **confused** हो गए होंगे पर कोई नहीं मैं आपको व्हाट अबाउट यू का मीनिंग कुछ उदहारण के साथ समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे यकीन है की आप समझा जाएंगे।

आप लोगो का **Favorite** उदाहरण

Rahul: HOW ARE YOU?

Riya: I AM FINE, WHAT ABOUT YOU?

इन दोनों वाक्यों से हमे ये समझ में आता है की राहुल ने पूछा की "आप कैसे हो?/आपके क्या हाल है?" तो रिया ने जवाब दिया की "मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो?" यानि यहाँ जो **Sentence** रिया ने पहले बोला [**I am fine**] यानि "मैं ठीक हूँ" उसी से **Related** मतलब होगा **What about you?** का यनि यहाँ **What About you** का मतलब हुआ और "आप कैसे हो? या आपके हाल चाल कैसे है?"

Example of What About You?

- I am standing at the bus stop, and what about you?
- (मैं तो बस स्टॉप पर खड़ा हूँ और आप कहाँ खड़े हो?)
- I got 90% in exams, and what about you?
- (मेरे तो 90% आये और आपके कितने आये?)
- She left the job yesterday, and what about you?
- (उसने कल जॉब छोड़ दी और आपने?)
- My dad is fit and healthy, and what about your dad?
- (मेरे पापा तो स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और आपके डैड कैसे हैं?)
- He is going to the village, and what about you?
- (वो तो गाँव जा रहा है और आप?)

तो देखा आपने की **What About You** के अलग अलग मतलब हैं यहाँ **depend** ये करता है की इससे पहले वाला **sentence** क्या कह रहा है? उसके **According** ही **What About You** का मतलब होता है।

अब आप में से बहुत से लोगो के दिमाग में ये चल रहा होगा की क्या हम "व्हाट अबाउट यू" का प्रयोग सिंगल सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। क्या **double sentence** होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूँ की आप इसे सिंगल सेंटेंस में भी बना सकते हैं।

What About You के बारे में कुछ और Concepts

What About (बारे में क्या ख्याल है?/कैसा रहेगा?/क्या होगा?)

- What about me?
- (मेरे बारे में क्या ख्याल है?)
- What about me?
- (मैं कैसा रहूँगा?)
- What about a party?
- (पार्टी के बारे में क्या ख्याल है?)
- What about him?
- (उसके बारे में क्या ख्याल है?)
- What about my brother?
- (मेरे भाई के बारे में क्या ख्याल है?)

- What about this one?
- (ये वाला कैसा रहेगा?)
- What about the red color?
- (लाल रंग कैसा रहेगा?)
- What about this dress?
- (ये वाला ड्रेस कैसा रहेगा?)
- What about tomorrow for a meeting?
- (मीटिंग के लिए कल कैसा रहेगा?)
- What about 4 o'clock in the Evening?
- (चार बजे शाम को कैसा रहेगा?)

What About (के बारे में क्या?/ का क्या?)

- What about my dreams?
- (मेरे सपनों का क्या?)
- What about that mother who has lost her son?
- (उस माँ का क्या जिसने अपना बेटा खोया है?)
- What about your promises?
- (तुम्हारे वादों का क्या?)
- What about my feelings?
- (मेरी भावनाओं का क्या?)
- What about the money that I gave you?
- (उन पैसे का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे?)
- What about that girl who loved you by heart and soul?
- (उस लड़की का क्या जिसने दिल से तुम्हें चाहा?)
- What about that mother who gave you the birth?
- (उस माँ का क्या जिसने तुम्हें जन्म दिया?)
- What about that father who moved heaven and earth to fulfill your dream?
- (उस बाप का क्या जिसने दिन रात एक कर दिया तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए?)
- What about that girl who broke your heart?
- (उस लड़की का क्या जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा?)
- what about that mother whose dream got shattered?
- (उस माँ का क्या जिसके सपने चूर चूर हो गए?)
- What about those tears that I shed in your memory?
- (उन आंशुओं का क्या जो मैंने तुम्हारे याद में बहाये थे?)
- What about those children who lost their parents?
- (उन बच्चों का क्या जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया?)